



# HB PORTFOLIO LIMITED

Regd. Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana)  
Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbportfolio.com  
Website : www.hbportfolio.com, CIN : L67120HR1994PLC034148

**10<sup>th</sup> August, 2023**

**Listing Centre**

**The Listing Department  
BSE Limited,  
Pheroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai - 400 001**

**Company Code: 532333**

**Sub: - Newspaper Publication (Un-Audited Financial Results for the first quarter ended 30.06.2023)**

Dear Sir / Madam,

Please find attached copy of Newspaper Publication of the Extract of Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the first quarter ended **30<sup>th</sup> June, 2023** duly published by the Company in Business Standard (English & Hindi Edition) on **Thursday, 10<sup>th</sup> August, 2023** pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Copy of the said publication is also available on the website of the Company, [www.hbportfolio.com](http://www.hbportfolio.com).

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours truly,

**For HB Portfolio Limited**

*Mohit Chauhan*

**Mohit Chauhan  
(Company Secretary & Compliance Officer)**

**Encl: As Above**

सं. 3,96,06,746/- तिथि 29.08.2023  
 28.10.2012 तक तथा उस पर 11:00 बजे से 16:00 बजे  
 24.03.2015 से भौतिक कब्जे के तहत स्ट्रक्चर)

34/63 मिन खसरा नंबर 418, 419, 420, 422, 423/1, 630, 633, 636, 640, 641, 643, 647/1, 660, 740, 84, 813, 817, 820, 823, 825, 833 किता 47 जमीन जिला मंडी (हि.प्र.) में स्थित, और के/के नं. 26/47,48  
 3,1-2 - 19 बीघा 1/3 हिस्सा, 0-7-12 बीघा के/के 29/51,52 किता 8,0-12-12 बीघा यानी 1/5 हिस्सा, 0-12-9 बीघा, के/के नंबर 32/58 से 61 किता 39 9-4, 22-9-3 बीघा यानी 9/60 हिस्सा, 2-18-6 बीघा, के/के नंबर 38/82 से 92 किता 56, 8-10-19 बिघा मूल चयोट जिला मंडी (हि.प्र.) में स्थित। मदन गोपाल नंबर 200014398463 ) -

**नीलामी/बिक्री सूचना**

जबकि, पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूत तट ऋण खाते में बैंक की बकाया राशि और ध्यान की वसूली के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के तहत बकाया राशि वेब पोर्टल (https://www.ibapi.in) पर प्रदर्शित होगी।

दिनांक: 28.08.2023, सोमवार

आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि एवं समय
जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	
बोली वृद्धि राशि	
2012	29.08.2023 11:00 बजे पूर्व
22/- तथा	04:00 बजे अप.
2,00,00,00,00/-	
20,00,00,00/-	
2,00,00,00/-	

संपादन नं. 2  
 दुकान नं. 402, जिसका कवर्ड एरिया 178.43 स्क्.मी., दुसरी मंजिल, "जयपुरिया प्लाजा", प्लॉट नं. डी-68ए, ब्लॉक-डी, सेक्टर-26, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301  
 सही/- प्राधिकृत अधिकारी  
 दिनांक : 08.08.2023  
 स्थान : गौतम बुद्ध नगर

पता: 11वीं मंजिल, टावर-ए, अल्ट्रा टावर, अल्ट्रा सिटी, प्लॉट नं. 10002 ईमेल आईडी: info.india@ap.cushwake.com  
 हस्ता./- (रवि शर्मा) अधिवक्ता  
 द्वितीय याचिकाकर्ता कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि  
 पता: 11ए, सुचेता भवन, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110002  
 दिनांक: 10.08.2023 | स्थान: नई दिल्ली

**एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड**

CIN : L67120HR1994PLC034148  
 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एश्लॉन इस्टिड्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम - 122001, हरियाणा  
 फोन : + 91-124-4675500, फैक्स : + 91-124-4370985  
 ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com

30/06/2023 को समाप्त तिमाही हेतु अंकेषित वित्तीय परिणामों (पृथक्कृत और समेकित) का विवरण

क्र. सं.	विवरण	पृथक्कृत			समेकित		
		तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त
		30/06/2023	30/06/2022	31/03/2023	30/06/2023	30/06/2022	31/03/2023
		अंकेषित	अंकेषित	अंकेषित	अंकेषित	अंकेषित	अंकेषित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	360.78	360.53	1193.88	484.79	548.86	2306.10
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद मदों से पूर्व)	299.87	301.13	274.09	166.67	240.90	354.86
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	299.87	301.13	274.09	166.67	240.90	354.86
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर परचात (अपवाद मदों के बाद)	284.87	300.51	223.04	111.02	221.69	294.38
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर परचात) तथा अन्य समावेशी आय (कर परचात) सम्मिलित हैं]	1503.29	(877.33)	(1248.09)	1495.88	(1039.57)	(1217.40)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42
7.	संचय (पुनर्मूल्यन संचय छोड़कर जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनापत्र में दर्शाया गया है)	-	-	15009.48	-	-	18113.78
8.	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु)	मूल : 2.65 तनुकृत : 2.65	2.79 2.79	2.07 2.07	1.03 1.03	2.06 2.06	2.73 2.73

**नोट्स :**  
 (i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, बीएसई लिमिटेड, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और कम्पनी की वेबसाइट [www.hbportfolio.com](http://www.hbportfolio.com) पर उपलब्ध है।  
 (ii) उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 09 अगस्त, 2023 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।  
 कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड  
 हस्ता./- अनिल गोयल (प्रबंध निदेशक) DIN: 00001938  
 स्थान : गुरुग्राम तिथि : 09/08/2023

**BAG बी.ए.जी. फिल्मस एंड मीडिया लिमिटेड**  
 सीआईएन : L74899DL1993PLC051841  
 पंजी. कार्यालय : 352, अग्रवाल प्लाजा, प्लॉट नंबर 8, कॉडली, नई दिल्ली-110086  
 कार्पो. कार्यालय : एकली-23, सेक्टर-16ए, फिल्म सिटी, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301  
 फोन : 91-120 4602424, फैक्स नंबर : 91-120 3911401  
 वेबसाइट : www.bagnet24.in, ई-मेल : info@bagnet24.in

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित पृथक्कृत और समेकित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण (रु. लाख में)

विवरण	पृथक्कृत				समेकित			
	तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त		तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
	30-06-2023 (अलेखापरीक्षित)	31-03-2023 (लेखापरीक्षित)	30-06-2022 (अलेखापरीक्षित)	31-03-2023 (लेखापरीक्षित)	30-06-2023 (लेखापरीक्षित)	31-03-2023 (अलेखापरीक्षित)	30-06-2022 (अलेखापरीक्षित)	31-03-2023 (लेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	883.95	1,015.39	875.25	3,531.71	2,489.33	3,721.02	2,114.34	11,171.12
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों से पहले)	45.29	(7.60)	(19.16)	11.77	82.56	382.89	(818.93)	(126.28)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर से पहले (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद)	45.29	(7.60)	(19.16)	11.77	82.56	382.89	(818.93)	(126.28)
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर परचात (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद)	30.70	(15.37)	(29.73)	(27.38)	70.26	383.69	(828.52)	(149.11)
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर परचात) तथा अन्य समावेशी आय (कर परचात) सम्मिलित हैं]	30.70	(25.66)	(29.73)	(37.67)	70.26	355.05	(828.52)	(177.75)
इक्विटी शेयर पूंजी	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66	3,956.66
प्रति शेयर अर्जन (रु. 2/- प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु) -	मूल : 0.02 तनुकृत : 0.02	(0.01) (0.01)	(0.02) (0.02)	(0.02) (0.02)	0.04 0.03	0.18 0.15	(0.42) (0.42)	(0.09) (0.09)

**नोट्स :**  
 1. 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित पृथक्कृत और समेकित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित किए गए हैं। ये परिणाम निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2023 को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।  
 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए गए 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित पृथक्कृत और समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है। 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित पृथक्कृत और समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.nseindia.in](http://www.nseindia.in) तथा [www.bseindia.in](http://www.bseindia.in) तथा कम्पनी की वेबसाइट [www.bagnet24.in](http://www.bagnet24.in) पर उपलब्ध है।  
 3. पूर्व तिमाही/वर्ष के आंकड़े, जहां आवश्यक विचारित किया गया है, पुनर्रसमूहित/पुनर्रखीकृत किए गए हैं।

कृते बी.ए.जी. फिल्मस एंड मीडिया लिमिटेड  
 हस्ता./- अनुराधा प्रसाद शुक्ला  
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
 डीआईएन : 0001716  
 स्थान : नोएडा तिथि : 08-08-2023  
 RADIO DHAMAL 106.4 FM

बिजनेस स्टैंडर्ड गुरुवार, 10 अगस्त 2023

**AND FINANCE COMPANY LIMITED**

CIN : L65910HR1982PLC034071  
 Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana  
 91-124-4675500, Fax : + 91-124-4370985  
 @hbleasing.com, Website : www.hbleasing.com

**OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS  
 OF THE QUARTER ENDED 30/06/2023**

	(Rs. In Lakhs)		
	Quarter ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended
	30/06/2023	30/06/2022	31/03/2023
	Un-Audited	Un-Audited	Audited
Net Profit / (Loss) for the period (before tax)	15.20	7.50	52.88
Net Profit / (Loss) for the period (after tax)	0.46	(1.68)	20.82
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	0.46	(1.68)	20.82
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	0.46	(1.68)	20.15
Reserve as shown at the end of the year	1100.41	1100.41	1100.41
Reserve as shown at the beginning of the year	NA	NA	(851.88)
Equity Share Capital	0.01	(0.02)	0.19
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	0.01	(0.02)	0.19

The format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of Stock Exchange, BSE India Limited, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company's website, [www.hbleasing.com](http://www.hbleasing.com)

For HB Leasing and Finance Company Limited  
 Sd/-  
**ANIL GOYAL**  
 (Managing Director)  
 DIN: 00001938

**HB PORTFOLIO LIMITED**

CIN : L67120HR1994PLC034148  
 Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana  
 Phone : + 91-124-4675500 Fax : + 91-124-4370985  
 E-mail : corporate@hbportfolio.com, Website : www.hbportfolio.com


**STATEMENT OF QUARTERLY FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED)  
 FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2023**

S. No.	Particulars	(Rs. In Lakhs)					
		Standalone			Consolidated		
		Quarter ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended	Quarter ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended
		30/06/2023	30/06/2022	31/03/2023	30/06/2023	30/06/2022	31/03/2023
	Un-audited	Un-audited	Audited	Un-audited	Un-audited	Audited	
1.	Total Income from Operations (net)	360.78	360.53	1193.88	484.79	548.86	2306.10
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	299.87	301.13	274.09	166.67	240.90	354.86
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	299.87	301.13	274.09	166.67	240.90	354.86
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	284.87	300.51	223.04	111.02	221.69	294.38
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1503.29	(877.33)	(1248.09)	1495.88	(1039.57)	(1217.40)
6.	Equity Share Capital	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	15009.48	-	-	18113.78
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-						
	<b>Basic:</b>	2.65	2.79	2.07	1.03	2.06	2.73
	<b>Diluted:</b>	2.65	2.79	2.07	1.03	2.06	2.73

**Notes:**  
 (i) The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of Stock Exchange, BSE Limited, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company's website, [www.hbportfolio.com](http://www.hbportfolio.com)  
 (ii) The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 09th August, 2023 and approved by the Board of Directors at its meeting held on the same date.

Place : Gurugram  
 Date : 09/08/2023

For HB Portfolio Limited  
 Sd/-  
**ANIL GOYAL**  
 (Managing Director)  
 DIN: 00001938



**SURVIVAL TECHNOLOGIES LIMITED**

(Formerly known as Survival Technologies Private Limited)  
 CIN U74999MH2005PLC154265  
 Regd. Office: 1401-A, Naman Midtown, 14th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Prabhadevi West, Mumbai MH 400013  
 Tel# +91-22-6190 2000 | Fax# +91-22-6190 2063  
 Email: info@survivaltechnologies.in | Website: www.survivaltechnologies.in

**CAUTION NOTICE**

This is to inform the public at large that Survival Technologies Limited (formerly known as Survival Technologies Pvt. Ltd.) has terminated the services of Ms. Anita Mishra on 24th July, 2023, Mr. Dinesh Bhalotia on 27th July, 2023 and of Mrs. Sabita Bhalotia on 28th July, 2023 for their serious and gross misconduct while in our employment as they were acting against the interest of the Company. They held positions of Manager HR - Sarigam Plant, Chief Financial Officer and Executive Tax and Compliance respectively within the Company till the date they were in employment.

Please be advised that neither Mr. Dinesh Bhalotia nor Mrs. Sabita Bhalotia nor Ms. Anita Mishra have any authority to represent the Company or engage in any transactions on its behalf. Any interactions or transactions conducted with them will be at your own risk and consequences and Survival Technologies Limited will not be responsible for such engagements.

Kindly note FIR no. 344 of 2023 has been registered at Dadar Police Station & Suit (st) No. 8615 of 2023 has been filed before City Civil Court at Greater Bombay against them. Any individual or parties found colluding or acting in connivance with them may also face legal consequences as determined by the Company.

Date: August 09, 2023  
 Place: Mumbai

CONCEPT



**V-GUARD INDUSTRIES LTD.**  
 Registered Office: 42/962, Vennala High School Road, Vennala, Ernakulam-682 028, Kerala. Tel : 0484-4335000, Email : mail@vguard.in  
 CIN: L31200KL1996PLC010010

**EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2023**

Sl. No	Particulars	(₹ in crores)			
		For the three months ended			For the year ended
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1.	Total income from operations (net)	1,147.68	1,080.14	1,009.64	4,049.60
2.	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	53.13	46.33	54.03	179.32
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after extraordinary items)	53.13	46.33	54.03	179.32
4.	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income] after tax	53.13	66.38	54.03	199.37
5.	Equity Share Capital	43.35	43.22	43.15	43.22
6.	Earnings per share of ₹ 1/- each (before extraordinary items)				
	(a) Basic:	1.23	1.07	1.25	4.15
	(b) Diluted:	1.22	1.06	1.24	4.12
7.	Earnings per share of ₹ 1/- each (after extraordinary items)				
	(a) Basic:	1.23	1.07	1.25	4.15
	(b) Diluted:	1.22	1.06	1.24	4.12

**EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2023**

Sl. No	Particulars	(₹ in crores)			
		For the three months ended			For the year ended
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1.	Total income from operations (net)	1,214.76	1,140.14	1,018.29	4,126.04
2.	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	64.22	52.73	53.37	189.05
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after extraordinary items)	64.22	52.73	53.37	189.05
4.	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income] after tax	64.22	72.77	53.37	209.09
5.	Equity Share Capital	43.35	43.22	43.15	43.22
6.	Earnings per share of ₹ 1/- each (before extraordinary items)				
	(a) Basic:	1.48	1.22	1.24	4.38
	(b) Diluted:	1.47	1.21	1.23	4.35